

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का.आ.सं०- सम्पदा / आवा०आवं०-वरीयता सूची / 2022-23 / ग-292

दिनांक:-18.11.2021

कार्यालय आदेश

महालेखाकार कार्यालय आवासीय परिसर

वर्ष 2022 के लिए महालेखाकार कार्यालय परिसर स्थित टाईप II से IV सरकारी आवास प्राप्त करने के इच्छुक (i) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना (ii) प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना, (iii) निदेशक, डाक एवं तार लेखापरीक्षा, बिहार, पटना, (iv) प्रधान निदेशक (ले०प०), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (v) निदेशक, लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पूर्वी कमान, पटना एवं (vi) उपनिदेशक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना कार्यालयों के पात्र अधिकारियों/ कर्मचारियों से आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी सुस्पष्ट आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में अपने शाखा अधिकारी को समर्पित करेंगे, जिसे संबंधित शाखा अधिकारी (पूर्ण रूप से भरे आवेदनों को) अपने स्तर से सूचना का सत्यापन कर एक साथ सभी आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2021 तक सम्पदा अनुभाग में समर्पित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(I) प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना, (II) प्रधान निदेशक (ले०प०) पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, (III) निदेशक, डाक एवं तार लेखापरीक्षा, बिहार, पटना, (IV) निदेशक, लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पूर्वी कमान, पटना (IV) उपनिदेशक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना कार्यालयों के अधिकारी/ कर्मचारी आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में अपने ही कार्यालय को समर्पित करेंगे। उपरोक्त कार्यालय अपने स्तर से पूर्ण रूप से भरे सुस्पष्ट आवेदन पत्रों को नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि, वर्तमान परिलब्धियाँ, ग्रेड वेतन (Pre-revised), वरीयता तथा गृह निर्माण हेतु लिए गए अग्रिम की सूचना का सत्यापन कर इस कार्यालय को दिनांक 03.12.2021 तक अग्रसारित करेंगे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त/अग्रसारित आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

वैसे अधिकारी/कर्मचारी जो नियुक्ति या स्थानांतरण के बाद अपना योगदान पटना कार्यालय में देते हैं, वे योगदान की तिथि से एक माह के अंदर आवेदन दे सकते हैं। किसी प्रकार के तथ्यों को छिपाने, गलत विवरण प्रस्तुत करने या एक से अधिक आवेदन जमा करने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है, साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। आवेदक आर. ब्लॉक या महालेखाकार कार्यालय परिसर स्थित आवास में से केवल एक स्थान के लिए ही आवेदन करें अन्यथा उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है।

हस्ता०/

वरीय उपमहालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक: 18.11.2021

ज्ञापांक: -सम्पदा - आवास आवं०- वरीयता सूची-2022-23/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के सचिव ।
2. सभी स्कंध अधिकारी ।
3. (I) व०उ०म०ले (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना, (ii) प्रधान निदेशक (लेखापरीक्षा), पूर्व मध्य रेलवे, जी.एम. बिल्डिंग काम्प्लेक्स, एस.बी.आई ए.टी.एम. के पीछे, हाजीपुर-844101 (iii) निदेशक डाक एवं तार लेखापरीक्षा, गर्दनीबाग, पटना, (iv) निदेशक, लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पूर्वी कमान, पटना-800019, (v) उपनिदेशक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना ।
4. व.ले.प.अ./मुख्यालय (AMG-I,II,III,IV,V) से अनुरोध है कि अपने प्रक्षेत्र में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आदेश का परिचालन करवाना सुनिश्चित करें।
5. व०ले०प०अ०/AMS- से अनुरोध है कि कार्यालय के वेबसाइट पर कार्यालय आदेश को प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।
6. सभी व०ले०प०अ०
7. सभी अनुभाग
8. सूचना पट

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी / सम्पदा

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

वैसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाना चाहिए, जिन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवास का आवंटन नहीं किया गया है।
वर्ष 2022 के लिए सरकारी आवास आवंटन हेतु

आवेदन पत्र

1. नाम एवं पदनाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) -
2. यूनिक आई0 डी0 सं0 -
3. कार्यालय एवं अनुभाग -
4. मूल वेतन (Revised 7th CPC) :-
5. परिलब्धियाँ/वेतन मैट्रिक्स :-
6. ग्रेड वेतन (Pre-Revised 6th CPC) :-
7. वर्ग (UR/OBC/SC/ST) :-
8. स्थाई/अस्थायी -
9. जन्म तिथि -
10. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के पटना कार्यालयों में नियुक्ति की तिथि -
11. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के पटना कार्यालयों में नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार के किसी भी सरकारी विभाग में योगदान की तिथि (यदि कोई हो) -
12. पूर्व के सेवा को नियमित किया गया है :- (हाँ / नहीं) -
(यदि हाँ तो कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न करें)
13. टाईप जिसके पात्र हैं -
14. पूर्व स्थानापन्न एवं पत्राचार पता के साथ कार्य स्थल -
15. आवेदक को सरकारी आवास के आवंटन से कभी वंचित किया गया है, (यदि हाँ, तो कब और किस तिथि तक) -
16. क्या आवेदक को पूर्व में कोई सरकारी आवास आवंटित किया गया है, (यदि हाँ तो कब और क्यों) -
17. पूर्व में आवंटित आवास को आवेदक द्वारा अस्वीकृत किया गया है, (यदि हाँ तो कब और क्यों) -
18. क्या आवेदक द्वारा अपने अथवा अपने दम्पति के नाम पर इस कार्यालय के अतिरिक्त किसी दूसरे प्राधिकारी द्वारा आवंटित क्वार्टर दखल कब्जे में है, यदि हाँ, तो क्वार्टर नं0 एवं स्थापना का नाम -
19. क्या आवेदक के दम्पति कहीं कार्यरत है, यदि हाँ, तो संगठन का नाम, जहाँ नियुक्त है, के साथ पदनाम, आहरित किये जाने वाले वेतन, आवास भत्ते आदि का विवरण दें -
20. क्या आवेदक अपने नाम अथवा परिवार के अन्य सदस्य जो आवेदक पर पूरी तरह से आश्रित है, के नाम पर पटना अथवा पार्श्ववर्ती, म्यूनििसीपल क्षेत्र में मकान का स्वामित्व है, यदि हाँ, तो मकान का होल्डिंग नं0 तथा वार्ड (स्थापन सं0 बतावें) -

21. मकान बनाने के प्रयोजन हेतु गृह निर्माण की राशि, यदि हो तो किस्त नं० तथा तिथि -
22. वर्तमान निवास स्थान एवं पता -
23. क्वार्टर टाईप (आवेदक स्पष्ट करें कि वह पात्रता के अनुसार कौन-सा क्वार्टर टाईप के लिए इच्छुक है) -
 - (i) टाईप I/II/III/IV/V :-
 - (ii) परिसर (कार्यालय परिसर या आर ब्लॉक):-

टिप्पणी:- क्वार्टर परिवर्तन के लिए नियमतः पृथक आवेदन देना चाहिए।

घोषणा

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि -

1. मैंने सरकारी आवासों (भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग) के आवंटन की नियमावली, 2006 को पढ़ और समझ लिया हूँ।
2. मेरे द्वारा दिए गए विवरण सही हैं तथा मुझे आवंटित किए जाने अथवा जो मुझे आवंटित हो चुका है, वह इन नियमों एवं पश्चात्वर्ती यदि कोई हो, के अधीन होंगे।
3. मैंएतद् द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि मैं अपने कार्य स्थल (पटना) में पैतृक सहित किसी घर का मालिक नहीं हूँ अथवा पार्श्ववर्ती म्यूनिसिपल क्षेत्र में मेरे अपने नाम से या मेरे पत्नी/पति के नाम से अथवा किसी अन्य आश्रित परिवार के सदस्य के नाम से मकान नहीं है।
4. मेरे पत्नी/पति सेवायुक्त हैं/नहीं है।
5. आवंटित क्वार्टर में मेरे द्वारा दूसरे किरायेदार नहीं रखे जायेंगे।
6. मैं लाइसेंस फीस भुगतान का उत्तरदायी होऊंगा/होउंगी तथा सम्पदा अधिकारी द्वारा आवंटित क्वार्टर का मेरी अस्वीकृति की दशा में रिक्त अवधि की क्षति के अतिरिक्त अन्य प्रकार की कार्रवाई का भागी होऊंगा/होउंगी।

हस्ताक्षर:-

पदनाम:-

अनुभाग:-

कार्यालय:-

मोबाईल न० -

उपरोक्त सूचना कार्यालय अभिलेखों से मिलान किया गया है एवं सही पाया गया।

व०ले०प०अ०/प्रशासन/स्थापना